

### HT MEDIA LIMITED

Regd. Office: Hindustan Times House 18-20, Kasturba Gandhi Marg New Delhi - 110001

Tel.: 66561234 Fax: 66561270

www.hindustantimes.com

E-mail: corporatedept@hindustantimes.com CIN: L22121DL2002PLC117874

30th May, 2025

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street

Mumbai - 400 001

**National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532662 Trading Symbol: HTMEDIA

Sub: Newspaper Publication - Postal Ballot Notice and other related information

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English) and "Hindustan" (Hindi) Newspapers, published on 30<sup>th</sup> May, 2025, giving details, inter-alia, about the:

- 1. Completion of dispatch of notice of Postal ballot dated, 20<sup>th</sup> May, 2025, electronically to the eligible Members of the Company; and
- 2. Other relevant information as required to be given to Members in terms of Companies Act, 2013 read with Circular(s) issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI LODR.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For **HT Media Limited** 

(Manhar Kapoor)
Group General Counsel & Company Secretary

Encl: As above

Corp. office: 5<sup>th</sup> Floor, Lotus Tower, A Block, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi- 110025 Ph.: 011-66561234



# Barclays to BlackRock, big finance queues up for Worli

As India's financial sector expands, demand surges for centrally located, premium towers

Ranjani Raghavan

BENGALURU/MUMBAI

andurang Budhkar Marg may not roll off the tongue like 'BKC', but that hasn't deterred India's top financial firms from making a beeline to this stretch of Worli in south-central Mumbai — once a premier business address, now staging a surprise come-

At the centre of this revival is Altimus, a 41-storey tower co-owned by K Raheja Corp and Singapore's GIC. Over the past two years, it has quietly pulled marquee tenants away from Bandra Kurla Complex (BKC) and Lower Parel, bringing the corporate spotlight back to Worli.

Its tenant list reads like a who's who of global finance: Morgan Stanley, KKR, BlackRock, Barclays, Kedaara Capital and TPG have all leased space at Altimus. Others, like Goldman Sachs, have opted for nearby Raheja projects such as Ascent. Large Indian firms-including Ultratech—are also moving in.

In the early 2000s, Worli's Ceejay House was India's most prestigious office address-home to Barclays, Rothschild, and Credit Suisse. But as BKC and Lower Parel powered ahead, Worli

slipped out of the spotlight. That tide, it seems, is now turning—with global investors and large Indian firms returning to centrally located towers that offer top-tier infrastructure and access.

The shift reflects more than a reshuffling of office addresses. As India's financial sector expands and global firms grow their presence here. demand is surging for centrally located, premium-grade towers-just as landconstrained hubs like BKC run short on supply. According to real estate consultants Knight Frank India and Anarock Property Consultants, office vacancies in BKC have dropped to a record low of



KKR, BlackRock, Barclays and others have leased space at Altimus, a 41-storey tower in Worli co-owned by K Raheja Corp and Singapore's GIC.

3-4% from 13-14% four years ago, raising rents and sparking a scramble for nearby areas such as Kalina, Kurla, Worli, and

On average, rent has jumped from ₹300 per sq. ft to ₹400 per sq. ft in three years, Anuj Puri, chairman of Anarock, had said earlier. Maker Maxity is BKC's

costliest location, with rents crossing

Average rentals in South Mumbai are

less than in BKC, at ₹250-280 per sq. ft

per month, according to industry

experts. However, traffic bottlenecks in

BKC pose challenges for many busi-

nesses, prompting some to seek more

accessible locations.

TRAFFIC issues in

BKC pose challenges

For firms like investment management company Alta Capital, the move is about faster, easier connectivity.

"The strategic location allows us to interact with all our stakeholders and partners efficiently as we are central to all the major business districts of Mum-

### THE OUIET MOVE

**OFFICE** vacancies in BKC have dropped to a record low of 3-4% from 13-14%

3800 per sq. ft.

ON an average, rent in the BKC area has jumped from ₹300 per sq. ft to ₹400 per sq. ft in three years

for many, prompting some to seek more sharply reducing travel times from farflung suburbs accessible locations bai—BKC, Lower Parel and Nariman Point," said Sid Gupta, Alta's founder

and managing partner. The firm leased

6,000 sq. ft at TS Suites, a plug-and-play

road and sea link are

office product by managed workspace provider TableSpace, inside Altimus. Infrastructure has been key to Worli's revival. The new coastal road and sea from far-flung suburbs and business nodes. Mumbai Metro's Aqua Line connected to Worli this month. For executives burned out by the BKC

link are sharply reducing travel times

commute, Worli's centrality is a major draw. "There isn't a lot of commercial space available elsewhere," said an executive from a relocating firm, adding that the commute to BKC was a "nightmare".

More firms are not just moving but scaling operations in India. "(Worli has) more convenient access, a central location, and larger space," said an executive at a tenant firm.

Barclays, for instance, has taken up 65,000 sq. ft in Altimus as part of its expansion strategy in India. The bank also highlighted the building's green design and alignment with its net-zero goals for 2050. "Mumbai is where the future of business in the country is unfolding, and 'Altimus' truly fits in the top commercial CBD (central business district) assets, globally benchmarked for the best representation of the new emerging India," said Vinod Rohira, chief executive and managing director, commercial real estate, K Raheja Corp. "Within Mumbai, Worli has emerged as a powerful new magnet, offering access, infrastructure and prestige," he added.

"From high-end tech to financial services, we are seeing global firms make long-term bets on India. This is fuelling strong demand for highquality office spaces that can keep up with the pace and complexity of modern enterprise," Rohira added.

Once an industrial zone filled with textile mills and working-class chawls, Worli began transforming in the 1990s and 2000s as mill closures cleared the way for luxury apartments.

Yet, despite that makeover, it lagged behind the commercial boom both in BKC and Lower Parel.

madhurima.n@htlive.com For an extended version of the story go to livemint.com

# Insolvency board opens door to part sale of bankrupt firms

Gireesh Chandra Prasad gireesh.p@livemint.com

NEW DELHI

he Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has allowed administrators of bankrupt companies to sell these entities either as a whole or their assets individually, in a move that gives a great deal of flexibility in debt resolution.

While amending the regulations, IBBI said this has to be done with the approval of creditors to the company.

Amendments to the 2016 corporate insolvency resolution regulations published on Wednesday said the professional representative of creditors running the bankrupt business may, with the approval of creditors, invite debt resolution plans for the corporate debtor as a whole, or bids for sale of one or more of its assets or for both

That implies creditors need not waste time by first calling for bids for a company as a

whole and if no investor shows interest, then proceed for asset The amend-

ments also allowed the resolution professional to invite those who pro-

vide interim finance to the distressed company during the bankruptcy proceedings to attend the meetings of creditors as observers without voting rights. Creditors run the bankrupt enterprise through the resolution professionals and decide the fate of the company by voting.

The amendments have opened a new dimension in the insolvency resolution process, said Anoop Rawat, partner (insolvency and



IBBI has been streamlining the process of debt resolution in order to improve the chances of rescuing companies

bankruptcy) at law firm Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

"IBBI has allowed piecemeal resolution which shall enable committee of creditors (CoC) to find asset-wise resolution where resolving the corporate debtor as a whole may look cumbersome uncertain or time consuming," said Rawat.

IBBI has been streamlining the **NCLT** data shows process of debt creditors are resolution in likely to recover order to improve over ₹67,000 cr the chances of from 284 cases of rescuing the bankrupt firms company and to during FY25 maximize creditors' realization of

> their dues. Anjali Jain, partner at Areness Law, said the regulation's amendment is in sync with the practical issues faced by interim financiers as they would now be able to oversee the utilization of interim funds and hence financiers would be incentizised to extend facilities.

The amended regulation, however, explicitly says interim finance providers will not have voting rights, a dampener for such financiers.

Jain said the flexible resolution approach is laudable as various exit points are statutorily incorporated. This would ensure value maximization of large entities where a diversified portfolio poses challenge to potential applicants who wish to bid for one or multiple assets, but not for the entire business, added

Over the years, the outcome of debt resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has improved. With the government filling vacancies, the National Company Law Tribunal (NCLT) is also working at near full strength.

However, extensive litigation among shareholders, creditors and multiple potential investors often complicates the process of bankruptcy resolution. Data from NCLT showed creditors stand to recover over ₹67,000 crore from 284 cases of bankruptcy resolution achieved in FY25, a 42% increase compared to the amount recoverable from the turnaround of 275 companies achieved in the same period a year ago, Mint reported on 15 May.

## HT Media Limited

CIN: L22121DL2002PLC117874 Registered Office: Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001

*Ph.:* +91-11-66561355; *Fax:* +91-11-66561270 E-mail: investor@hindustantimes.com; website: www.htmedia.in Corporate Office: 5th Floor, Lotus Tower, A Block, Community Centre New Friends Colony, New Delhi-110025 **Ph.:** +91-11-6656 1234

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions o Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act'), Rules 20 and 22 of the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014 ('Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 ('SEBI LODR'), read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA' (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ('Secretarial Standard-2'), and other applicable laws, rules and regulations as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), it is proposed to seek approval of members via Postal Ballot process by e-voting only, in respect of the ollowing business as set out in the Postal Ballot Notice dated 20th May, 2025 (the

### Description of Special Business Appointment of Shri Manhar Kapoor (DIN: 06553730) as a Whole time

n compliance with the provisions of the Act, MCA Circulars and the SEB LODR, the Company has completed dispatch of the Notice through e-mail or Thursday, 29th May, 2025 to those members whose e-mail address is registered with Denository Participant (in case of electronic shareholding)/the Company's Registrar and Share Transfer Agent (in case of physical shareholding). The detailed procedure/instructions on the process of e-voting is specified in the

Other details are as under:

Date: May 29, 2025

Director on the Board of the Company

- The cut-off date for the purpose of reckoning voting rights and sending Notice is **Friday**, **23<sup>rd</sup> May**, **2025** ('Cut-off date'). Members whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date shall treat this notice fo nformation purposes only
- The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide the e-voting facility. The e-voting facility shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Friday, 30<sup>th</sup> May, 2025 till 5:00 P.M. (IST) on Monday, 30<sup>th</sup> June, 2025. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- Manner of Registering/Updating email address: Members holding shares in dematerialized mode, are requested to
- depository through their depository participants. Members holding shares in physical form and who have not registered/ updated their KYC details including e-mail address with the Company or RTA, may register/update such details by downloading the relevan forms from the said link https://ris.kfintech.com/ and sending the same physically along with the request letter duly filled with the details therein and attaching such documents as required in the forms to KFin Technologies Limited, Unit: HT Media Limited, Ramky Selenium, Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana

register their email addresses and mobile numbers with their relevan

- Results of Postal Ballot will be declared by the Chairperson or any othe person authorized by her, on or before Wednesday, 2nd July, 2025. The voting results along with the Scrutinizer's report of Mr. Sanket Jain Practicing Company Secretary, will be hosted on the Company's website viz www.htmedia.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com. The result shall also be intimated to the Stock Exchanges viz. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.
- In case of any query regarding e-voting facility, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at the Download section at www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (NSDL) at evoting@nsdl.com or can write at National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Naman Chamber Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 Maharashtra, India or call at 022-4886 7000.

For HT Media Limited

Manhar Kapoo (Group General Counsel & Company Secretary



Standalone		Consolidated									
Extracts of Audited Financial Results for the Quarter & `					Year Ended on March 31, 2025					(₹ in Lakh)	
	Standalone					Consolidated					
Particulars	Quarter Ended on			Year Ended on		Quarter Ended on			Year Ended on		
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total Income from Operations	3,21,753.45	2,02,857.99	3,00,834.60	8,72,535.55	8,02,672.50	4,64,254.66	2,80,776.52	3,99,630.90	12,03,857.24	10,40,678.72	
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (before Exceptional Items)	28,218.67	17,126.47	23,872.98	72,571.67	64,005.72	34,500.95	19,622.79	29,327.99	85,097.52	74,210.77	
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (after Exceptional Items)	18,622.76	17,126.47	14,307.83	62,975.76	45,649.11	24,905.04	19,622.79	19,762.84	75,501.61	55,854.16	
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after Tax (after Exceptional Items)	13,718.93	12,859.73	10,229.25	47,611.11	34,436.26	18,266.73	14,242.76	14,149.55	55,742.46	41,437.70	
Total Comprehensive Income after taxes and Non Controlling Interest	11,114.20	12,579.54	7,659.03	44,674.16	32,165.26	14,988.82	13,545.02	10,981.40	51,156.97	37,831.89	
Paid up Equity Share Capital	27,000.00	27,000.00	18,000.00	27,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	18,000.00	27,000.00	18,000.00	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet.	-	-	-	2,05,760.48	1,95,899.62	-	-	-	2,20,905.69	2,04,562.03	
Earnings Per Share (from continuing & discontinuing Operations) (of ₹ 1/- each) (Not Annualised for the Quarter ):											
(a) Basic (in ₹)	0.51	0.48	0.38	1.76	1.28	0.65	0.51	0.50	2.00	1.49	
(b) Diluted (in ₹)	0.51	0.48	0.38	1.76	1.28	0.65	0.51	0.50	2.00	1.49	

The Company has issued 90,00,00,000 equity shares of ₹1.00 each as fully paid bonus shares in the ratio of one equity share of ₹1.00 each for every two equity shares held on record date of October 7, 2024. This has been considered for calculating weighted average number of equity shares for all comparative periods presented as per Ind AS 33. In line with the above, EPS (basic and diluted) have been adjusted for all periods presented. Additionally, the company has increased the Authorized Share Capital from ₹20,000 lakh to ₹100,000 lakh. The Consolidated & Standalone financial results for the quarter and the year ended on March 31, 2025 have been audited by statutory auditors of the company. The statutory auditors have expressed unmodified opinion on Standalone and Consolidated Financial Results.

The Board of Directors has recommended a Final Dividend of ₹0.14 per equity share on face value of ₹1.00 per equity share for total 27000.00 lakh Number of Equity Shares (Previous year ₹0.63 per equity share for total 18000.00 lakh Number of Equity Shares) for the Place: New Delhi  $financial\ year\ 2024-25\ which\ is\ subject\ to\ approval\ of\ shareholders\ in\ ensuing\ annual\ general\ meeting\ of\ the\ company$ Date : 29th May, 2025 This is in addition to the Interim Dividend of ₹0.53 per share (face Value of ₹1.00 per share) for total 27000.00 lakh number of Equity 

Shares declared by the Board of Director in its meeting held on February 11, 2025 and paid of March 10, 2025.

Accordingly, the total dividend for the financial year 2024–25, including the Interim and proposed Final Dividend, amounts to ₹18090.00 lakh (₹0.67 per equity share on 27,000.00 lakh equity shares) as compared to a total dividend of ₹11,340.00 lakh (₹0.63 per equity share on 18,000.00 lakh equity shares) declared for the previous financial year 2023-24.

Figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between figures in respect of the year ended on March 31, 2025 and the figures for the nine months ended on December 31, 2024 of the current financial year. Comparative figures have been regrouped/ recasted/ rearranged wherever deemed necessary to conform to current period classification

Scan the QR to view detailed financial results

**Note**: The above is an extract of the detailed format of Quarter and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/www.nseindia.com)and Company's Website (www.nbccindia.in)

For and on behalf of NBCC (INDIA) LIMITED

(K. P. Mahadevaswamy) Chairman & Managing Director

(DIN: 10041435)

## **NBCC (INDIA) LIMITED**

(A Government of India Enterprise) A Navratna Company Regd. Address: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003 CIN-L74899DL1960G0I003335

## पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां उच्च स्तर पर अलर्ट मोड में

# अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरक्षा एजेंसियां उच्च स्तर पर अलर्ट मोड में हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सरक्षा कवच तैयार करने का काम तेज कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय

गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से यात्रा की तैयारी और सुरक्षा रणनीति को महत्वपूर्ण दिशा मिली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) के महानिदेशक ने सीआरपीएफ की तैयारियों को लेकर मंथन किया है।

सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के मुख्य मार्गों की सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया गया है और पहलगाम, बालटाल की सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की गई है। गृह मंत्री शाह को पुरे सुरक्षा प्लान की जानकारी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि सीआरपीएफ, राज्य की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर 3 जुलाई से शरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के पूर्ण



जम्मू में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ●प्रेट्र

सुरक्षा कवच प्लान पर काम कर रहे हैं। मिशन को मिलेगी कामयाबी:

अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बडी चुनौती है। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद अमरनाथ यात्रा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना एजेंसियों के लिए

## अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू - कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और वार्षिक अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गुरुवार रात यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि शाह कडी सरक्षा के बीच आज शाम यहां पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश का उनका पहला दौरा है। जम्मू क्षेत्र में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान गृह मंत्री पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए पुंछ जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि शाह पुंछ जिले में धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। वह बीएसएफ कर्मियों से मिलेंगे जहां 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी गोलाबारी और डोन हमले के दौरान नागरिकों की मौत हुई थी।

# विवाह के एक साल के भीतर भी तलाक का मुकदमा संभव

समझौते के आधार पर दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह निर्णय न्यायमुर्ति विवेक चौधरी और

न्यायमूर्ति बुजराज सिंह की खंडपीठ ने अम्बेडकर नगर निवासी पति की अपील पर पारित किया। इस मामले में दम्पति का विवाह 3 सितम्बर 2024 को हआ था।

निवि	निविदायें आमंत्रित की जाती है।								
क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रू३ (सास में)							
	Design, fabrication, supply and installation of flage type service QR code signage board at different IA. UPSIDA Ghaziabad (IA. SSGT Road, Bulandshahar Road, Loha Mandi & Site-4 Sahibabad, Ghaziabad.	8.14							
2.	Supply and Installation of damage street light network of site-4 sahibabad Nagar Nigam GZB. area at various places street light network.	6.93							
निवि कार्य	दा दिनांक 30.05.2025 को 11:00 बजे से दिनांक 06.06.2025 को 17:00 बज लिय से प्राप्त की जा सकती है. जिसे दिनांक 09.06.2025 को 11:00 बजे या	ने तक खण्डीय इसके पश्चात							

सकती है। नोटः 1. निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित दरें अंकित करें, अलग

मात्र जीoएसoटीo देय होगा। 2. विद्युत कार्यों हेतु निविदारवाताओं को निविदा को "विद्यु सुरक्षा विमान" उठाठा शासन. लखनऊ में 'क' श्रेणी, अनुमोदित लाइसेन्स एवं Eligibilit Criteria के अनुमास समस्त प्राय उपलब्ध कराने अनिवार्य होगा। निविदा से सम्बन्धिका जानकारी हेतु श्री प्रवेश गिरी, प्रबन्धक (वि०), दूरमाष नं० 9927030700 पर सम्पर्क कर सक

तहसील से काश्तकार

## विस्फोटक लूटने की जांच शुरू

लखनऊ. विधि सं। अपने एक महत्वपर्ण

निर्णय में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट

किया है कि असाधारण मुश्किलों अथवा

असाधारण उत्पीडन का सामना कर रहे पति

अथवा पत्नी विवाह के एक साल के भीतर भी

दरअसल, हिन्दू विवाह अधिनियम के

तहत दम्पति विवाह के एक वर्ष के पश्चात ही

तलाक की मांग कर सकता है। इसी आधार

तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं।

भ्वनेश्वर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम ने गुरुवार को ओडिशा के संदरगढ जिले में माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटकों की लुट मामले की जांच शरू कर दी।एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उप महानिरीक्षक , पुलिस

## पत्नी, बेटी की हत्य के बाद खुदकुशी

## सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दीव का रिकॉर्ड

दयौरार

को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला दीव देश का पहला जिला बन गया है। गुरुवार को आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (एमएनआरई) प्रल्हाद जोशी ने कहा कि दीव ने ११ .88 मेगावाट क्षमता हासिल की है। उन्होंने कहा कि दीव नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में एक राष्ट्रीय उदाहरण है, जहां पूरी

बिजली मांग सौर ऊर्जा से

पूरी की जाती है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रथम तल, कर्मिशियल कॉम्पलेक्स, (पी-2) सैक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर-201308 (उ.प्र. Toll Free No. : 18001808296 वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com

क्र सैक्टर/ग्राम खाता खसरा खसरे का

पत्रांकः वाई०ई०ए०/भूलेख/388/2025 सार्वजनिक सुचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम दयौरार के सैक्टर 08डी के अंतर्गत आने वाली भूमि का सुनियोजित विकास हेत् सम्बन्धित कृषकों द्वारा दी गयी सहमति की दर रू० 3808/- प्रति वर्गमी० से प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-314/77-3-163एम, दिनांक 23.02.2016 में तय प्रक्रियानुसार निम्नानुसार क्रय किया जाना

खातेदार का नाम व पता

दी।एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उप महानिरीक्षक , पुलिस अधीक्षक (एसपी) और	भ मांक	का नाम	खाता संख्या	संख्या	खसर का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	खातदार का नाम व पता	तहसाल स प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे० में)
एडिशनल एसपी समेत एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने राउरकेला	1.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	238 241 171	140 141म 134	1.1260 0.3190 0.1140	नैपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह नि० ग्राम दयौरार, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।	में से में से सम्पूर्ण	0.3753 0.1064 0.1140
<sub>का दौरा किया।</sub> युवाओं की समिति गेंग्रह्म नहीं का ने	2.	सैक्टर 8डी० दयौरार	168	22	0.5220	मधु देवी पत्नी कृपाल सिंह व शीलेन्द्र पुत्र अशोक सिंह नि० ग्राम रोही, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।	में से	0.1740
में युवा नहीं : सुले मुंबई। एनसीपी ( एसपी ) की सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने युवा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति में युवा विधायकों, विपक्षी सदस्यों	3.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	289	177	2.7170	राकेश पुत्र कमल सिंह व गायित्री देवी पत्नी कमल सिंह नि० ग्राम मोहबलीपुर परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।	में से	0.2214
	4.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	289	177	2.7170	लेखराज सिंह पुत्र मलखान सिंह नि॰ ग्राम मोहबलीपुर, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।	1/4	0.6793
और महिला प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया है। सुले ने दावा किया कि यह आश्चर्यजनक है कि राज्य की युवा नीति की समीक्षा	5.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	289	177	2.7170	हर्ष जगनानी पुत्र राजेन्द्र कुमार जगनानी व सीमा जगनानी पत्नी राजेन्द्र कुमार जगनानी नि० ए-803, एल्डिगो अपार्टमेंट, सैक्टर-04, गाजियाबाद।	में से	0.1763
के लिए घोषित समिति में युवा विधायक को शामिल नहीं किया गया है।ऐसा नहीं है कि विधानसभा में	6.	सैक्टर 8डी० दयौरार	274	9	0.7840	श्रीमती विनीता गुप्ता पत्नी संजय कुमार व डा० संजय कुमार पुत्र रामनाथ नि० आई.एम.ए. कॉलेज के सामने साहिबाबाद, गाजियाबाद	में से	0.0588
कोई युवा विधायक नहीं है। पत्नी, बेटी की हत्या के बाद खुदकुशी	7.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	289	177	2.7170	श्रीमती गायित्री देवी डालिमया पत्नी गौतम कुमार डालिमया, गौतम कुमार डालिमया पुत्र दीनदयाल डालिमया नि० चौखण्डी, नौएडा।	में से	0.1762
कोलकाता।पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कर्ज में डूबे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और नाबालिग	8.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	348	53	1.8240	भुपेश कुमार, रितेश कुमार पुत्रगण चतर सिंह नि॰ ग्राम रोही, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर।	1/16	0.1140
बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान 62	9.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	210	101	0.4640	श्रीमती विमलेश बंसल पत्नी सुनील कुमार बंसल नि० ब्रहमकुमारी आश्रम, हीरा कॉलोनी, दनकौर रोड सिकन्द्राबाद, जनपद सिकन्द्राबाद	1/2	0.2320
वर्षीय बबलू घोष, उनकी पत्नी 45 वर्षीय प्रतिमा और 13 साल की बेटी पौषाली	10.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	431	51म 52	0.1180 0.3790	मुकेश कुमार पुत्र हरीशचन्द नि० मोहल्ला वेद्यवाडा, कस्बा सिकन्द्राबाद जिला बुलंदशहर	सम्पूर्ण 1/2	0.1180 0.1264
के रूप में की गई है। शव आवास से देर रात करीब दो बजे बरामद किए गए।	11.	सैक्टर <b>8</b> डी० दयौरार	281 268	115 138/1	0.6230 0.3060	संजय कुमार सिंघल पुत्र राकेश कुमार सिंघल नि० बी-145, ग्राउण्ड फ्लोर, निर्माण विहार दिल्ली।	में से में से	0.1038 0.0612
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दीव का रिकॉर्ड नई दिल्ली। विज्ञती मांग	12.	सैक्टर 8डी० दयौरार	197	8	1.4830	करन सिंह राघव पुत्र विजयपाल सिंह राघव नि० एच-246, तारा पेही भरना कुंआ के पास खाण्सा, गुडगाँव, हरियाणा।	में से	0.0843
को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला दीव देश का पहला	13.	सैक्टर 8डी०	274	9	0.7840	करन सिंह राघव पुत्र विजयपाल	में से	0.1568

गुडगाँव, हरियाणा। योगेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री **14**. सैक्टर **8**डी० 0.7840 में से 0.0588 274 9 रामदयाल पाण्डेय नि० एस-108, मगला बाजरा रोड प्रेमपुरी, उत्तम नगर, दिल्ली।

सिंह राघव नि० एच-246, तारा

पेही भरना कुंआ के पास खाणंसा,

अधोहस्ताक्षरी को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। डिप्टी कलेक्टर, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद फरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की बेवसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपित्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर

## इंटरनेट की राजधानी होगा भारत : सिंधिया

नई दिल्ली, एजेंसी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि भारत अगले पांच साल में दिनया की इंटरनेट राजधानी बनने के लिए तैयार है।

भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में सिंधिया ने कहा कि भारत को दुनिया भर में डिजिटल-फर्स्ट अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इस डिजिटल-फर्स्ट अर्थव्यवस्था का नेतृत्व दूरसंचार क्रांति कर रही है।



है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है। ब्रॉडबैंड पयोगकर्ता आधार बढ़कर 94 करोड़ हो गया है। कनेक्टिविटी यानी संपर्क लागत और मोबाइल हैंडसेट की कीमतों में भारी

### U.P. Development Systems Corporation Ltd. nb⊜eeco

**Expression of Interest (EoI) Notice** Eols are invited from eligible organizations for providing opinion/suggestions on the draft RFP for Selection of Managed Service Provider for Supply, Installation, Commissioning and O&M of UPSWAN-3.0. The Eol document has been published on e-procurement portal https://etender.up.nic.in vide ref. no. UPDESCO/EOI/ UPSWAN3/01 dated 29.05.2025. The last date for submission of opinion/suggestions is 13.06.2025.

UPDESCO/EOI/UPSWAN3/01 MANAGING DIRECTOR



सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रताप विहार, ग्राम निवाडी, ग्राम डासना एवं मधुबन बापूधाम अवासीय योजनाओं के आवंटन पत्र डॉक के माध्यम से प्रेषित किये गये थें, जिसमें से कुछ आवंटियों के आवंटन पत्र वापिस कार्यालय को प्राप्त हो गये है। अतः जिन आवंटियों के उक्त योजनाओं से सम्बन्धित आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुए है। वे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रधानमंत्री आवास योजना सेल कमरा नं0–306F से अपनी मूल आधार की प्रति के साथ सम्पर्क कर दिनांक 02.06.2025 से 17.06.2025 तक कार्यालय कार्य दिवस समय प्रातः 10:00 बजे से 1:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त न करने की दिशा समस्त उत्तरदायत्वि आवंटी का होगा।

ई.मेल : helplinegda@gmail.com, 👔 : @ Gda Ghaziabad 💟 : @ gdagzb हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाईट: www.gdaghaziabad.in एक सुन्दर शहर .....हमारा संकल्प

भारतीय दरसंचार विनियामक प्राधिकरण

वर्ल्ड टेड सेन्टर, छठा तल, टावर-एफ

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

रिक्ति परिपत्र संख्याः 1-05/2025-प्रशासन एवं कार्मिक विषयः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली में

प्रतिनियुक्ति की अन्यत्र सेवा शर्तों के आधार पर संयुक्त सलाहकार (सुचना प्रौद्योगिकी) के पद को भरने के संबंध में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि का विस्तार।

उक्त विषयक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17 फरवरी, 2025 के संदर्भ में. जिसके अन्तर्गत भारतीय दरसंचार विनियामक प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली में निम्नलिखित पद को प्रतिनियुक्ति की अन्यत्र सेवा शर्तों के आधार पर भरने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे-

पद का नाम	वतन बंड एवं ग्रंड वतन
संयुक्त सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी)	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन लेवल-13, रुपये 123100-215900
41	पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को <u>26 जून, 2025</u> तक बढ़ा

3. अन्य विवरण भादूविप्रा की बेवसाईट **www.trai.gov.in** से प्राप्त किये जा

सकते हैं। सीबीसी 06202/12/0012/2526

## एचटी मीडिया लिमिटेड

CIN: L22121DL2002PLC117874

**पंजीकृत कार्यालय:** हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 **फोन:** +91-11-6656 1355; फैक्सः +91-11-6656 1270 ईमेलः investor@hindustantimes.com; वेबसाइटः www.htmedia.ir कारपोरेट कार्यालयः 5वां तल, लोटस टावर, ए ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी

नई दिल्ली - 110025

## पोस्टल बैलट की सूचना

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, साथ में पठित धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, <mark>('अधिनियम')</mark>, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियमों 20 व 22 ('नियमों'), एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 ('सेबी एलओडीआर'), साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संदर्भ में जारी बाद के परिपत्रों, नवीनतम जारी 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (समग्र रूप से 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में संदर्भित), भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 ('सचिवीय मानक-2'), और समय-समय पर संशोधित अनुसार अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों (उस समय हेतु प्रचलित उनका कोई भी बैधानिक परिवर्तन (नों) या पुनःव्यवस्थापन(नों)) के अनुसार एवं उनके अनुसरण में, सदस्यों को प्रसारित, पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 20 मई, 2025 (''नोटिस'') में निर्धारित अनुसार निम्नलिखित कारोबार के संबंध में केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा पोस्टल बैलट प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों का अनमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है।

## विशेष कारोबार का वर्णन

कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री मनहर कपुर (डीआईएन-06553730)

अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी ने गुरूवार, 29 मई, 2025 को ई-मेल के जरिए नोटिस उन सदस्यों को प्रेषित कर दिया है जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (इलेक्टॉनिक शेयरधारण के मामले में)/कम्पनी के पंजीयक तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट (भौतिक शेयरधारण के मामले में) के पास पंजीकत है। विस्तत प्रक्रिया/ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर अनुदेश नोटिस में निर्दिष्ट किए गए हैं। अन्य विवरण अधोलिखित अनुसार हैं:

 वोटिंग अधिकारों की गणना और नोटिस भेजने के प्रयोजन हेतु कट-ऑफ तिथि, शुक्रवा 23 मई, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') है। केवल वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका/लाभकारी

 ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु कम्पनी ने एजेंसी के तौर पर नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग सिवधा शुक्रवार, 30 मई, 2025 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होकर सोमवार, 30 जून, 2025 को सायं 5.00 **बजे (भा.मा.स.) तक** खुली रहेगी। उसके बाद, ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। यदि एक बार सदस्य द्वारा रिजोल्यूशन पर वोट डाल दिया जाता है तो वह सदस्य बाद में उसे बदलने के लिए अनुमत्य नहीं होगा/होगी।

3. ईमेल पता को पंजीकृत करने/नवीकृत करने का तरीका

जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंटस के माध्यम से अपने संबंधित जमाकर्ताओं के पास अपने ईमेल पते और मोबाइल नम्बर पंजीकृत करवाएं।

जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी या आर.टी.ए. के पास अपने ई-मेल पता सहित अपने के.वाई.सी. विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, निम्नलिखित लिंक <u>https://ris.kfintech.com/</u> से संबंधित प्रपत्रो<sup>ँ</sup> को डाउनलोड करके ऐसे विवरणों को पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं और केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड यूनिटः एचटी मीडिया लिमिटेड, रामके सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 को अपने विवरण के साथ विधिवत रूप से आग्रह पत्र को भरकर एवं प्रपत्र में अपेक्षित अनुसार अपने ऐसे दस्तावेजों को अनुलग्न करके इसे

द्वारा ब्धवार, 02 जुलाई, 2025 को या उससे पहले की जाएगी। श्री संकेत जैन, प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव की संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ वोटिंग परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट यानी www.htmedia.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई व एनएसई की वेबसाइटों क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर भी सूचित किया जाएगा। ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में कोई पूछताछ होने पर, सदस्य वेबसाइटः

पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति

www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों हेतु उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल को देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सीनियर मैनेजर (एनएसडीएल) को evoting@nsdl.com पर आग्रह कर सकते हैं या नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तृतीय तल, नरीमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051, महाराष्ट्र, भारत को लिखित आग्रह कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

**दिनांकः** 29 मई, 2025

स्थान: नई दिल्ली

कृते एचटी मीडिया लिमिटेड

(ग्रुप जनरल काउन्सल एवं कम्पनी सचिव)

## टगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड

**ढाणे।** नवी मुंबई में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट से ढगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वे सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को धोखा देते थे और उनको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबुर करते थे।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 🝕 6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली—110029 वेबसाइटः www.cercind.gov.in

यांचिका सं.४९४ / टीएल / 2024

दिनांकः 26.5.2025 विद्यत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड साउथ ओलपाड ट्रांसिमशन लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली अर्थात् ''फेस–IV (7 जीडब्ल्यू)ः भाग बी के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गर्यो है) कार्यान्वित करने के लिए विद्युत अधिनेयम्, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है: पारेषण घटक का नाम

	से मास में अनुसूचित सीओडी
2X330 एमवीएआर, 765 केवी और 1X125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टरों के साथ ओलपाड के दक्षिण	एसपीवी का अधिग्रहण से 24
में (ओलपाड और इच्छापुर के बीच) उपयुक्त स्थान पर	मास (15 / 10 / 2026)

प्रभावी तारीख

(एक अतिरिक्त इकाई सहित 7x500 एमवीए सिंगल

• 765 / 400 केवी. 1X1500 एमवीए आईसीटी—2 नंबर

- 765 केवी आईसीटी बे– 2 नंबर
- 400 केवी आईसीटी बे- 2 नंबर

एस / एस की स्थापना

- 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर-2 नंबर
- 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर-1 नंबर • 765 केवी रिएक्टर बे- 2 नंबर
- 765 केवी लाइन बे– 4 नंबर • 400 केवी रिएक्टर बे- 1 नंबर
- 400 केवी लाइन बे— 4 नंबर • 110 एमवीएआर. 765 केवी. 1-पीएच रिएक्टर
- (लाइन / बस रिएक्टर के लिए स्पेयर यूनिट)-1 नंबर भावी पावधानः निम्नलिखित के लिए स्थान

बे के साथ 765 / 400 केवी आईसीटी — 4 नंबर

- स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे -8 नंबर
- बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर
- 765 केवी सेक्शनलाइजर बेः 1—सेट
- स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन
- बे के साथ 400 / 220 केवी आईसीटी के साथ - 10 नंबर
- बे के साथ 420 केवी बस रिएक्टरः 3 नंबर
- 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बेः 1- सेट • 220 केवी लाइन बेः 18 नंबर
- 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बेः 1 सेट
- 220 केवी बीसी: 1 नंबर
- 2500 मेगावाट. ± 500 केवी साउथ ओलपाड (एचवीडीसी) [वीएससी] टर्मिनल स्टेशन (2x1250 मेगावाट) की स्थापना
- वडोदरा (जीआईएस) साउथ ओलपाड (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन • वडोदरा (जीआईएस) – साउथ ओलपाड (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के लिए वडोदरा (जीआईएस) पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर
- वडोदरा (जीआईएस) साउथ ओलपाड (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन (एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ) के वडोदरा (जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सर्किट पर 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर • 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर
  - 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट- 2 नंबर
  - स्पेयर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए वडोदरा (जीआईएस) पर उपलब्ध 1x80 एमवीएआर स्पेयर बस रिएक्टर

नामिक वोल्टता पर 2100 एमवीए प्रत्येक सीकेटी की

- न्यनतम क्षमता के साथ टिवन एचटीएलएस कंडक्टर का उपयोग करते हुए साउथ ओलपाड (जीआईएस) – हजीरा 400 केवी डी / सी लाइन
- अहमदाबाद–साउथ ओलपाड (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन
  - अहमदाबाद-साउथ ओलपाड (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के लिए अहमदाबाद एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर

अहमदाबाद-साउथ ओलपाड (जीआईएस) 765 केवी

- डी / सी लाइन (एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ) के अहमदाबाद और साउथ ओलपाड़ (जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर
- 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 4 नंबर अहमदाबाद छोर के लिए 2 और साउथ
- ओलपाड (जीआईएस) छोर के लिए 2] • 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग
- इक्विपमेंट- 4 नंबर अहमदाबाद छोर के लिए 2 और साउथ ओलपाड (जीआईएस) छोर के लिए 2] • 1x80 एमवीएआर, 765 केवी 1—पीएच स्पेयर लाइन

रिएक्टर – 1 नंबर (साउथ ओलपाड छोर के लिए)

• अहमदाबाद एस / एस पर लकाडिया–अहमदाबाद लाइन (खावड़ा फेस-॥ भाग बी योजना के अधीन) के लिए कार्यान्वित किए जा रहे 1x80 एमवीएआर, 765 केवी 1-पीएच स्पेयर लाइन रिएक्टर को स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

वड़ोदरा एस / एस का टीएसपी ऊपर दिए गए क्रम सं. 2 एवं 3 पर परिकल्पित कार्य के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा

अहमदाबाद एस / एस का टीएसपी ऊपर दिए गए क्रम सं. 5 एवं 6 पर परिकल्पित कार्य के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा। iii. एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन के लिए सांकेतिक कुल स्थान आवश्यकता 400 मी x 300

मी है। एसी स्विचयार्ड कनेक्शन और डीसी ओवरहेड लाइन आयताकार प्लॉट की 300 मी साइड से होगा। iv. टीएसपी सुनिश्चित करेगा कि अपरोच रोड और एक्सेस रोड की चौड़ाई, कन्वर्टर

ट्रांसफॉर्मर सहित एचवीडीसी इक्विपमेंट के सुचारु परिवहन के लिए और एचवीडीसी के लिए स्थान के चारों तरफ एक्सेस रोड के साथ न्यूनतम 10 मी होगी।

टीएसपी सुनिश्चित करेगा कि एचवीडीसी टर्मिनल के लिए प्रस्तावित स्थान हेतु स्थानिक व्यवस्था और वर्तमान एसी जीआईएस पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित

क. एसी जीआईएस स्टेशन और एचवीडीसी टर्मिनल के बीच अंतरसंयोजन के लिए आवश्यक बस डक्ट लंबाई रेखीय ढंग में जहां तक हो सके न्यूनतम है। ख. एसी लाइन टर्मिनेशन गांट्रीज का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एसी और

एचवीडीसी दोनों यार्डी की समाप्ति छोर के पास वर्तमान / भावी एसी लाइनों और एचवीडीसी लाइनों की कोई क्रॉसिंग न हो। 2. सेंट्रल ट्रांसिमशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.11.2024 के अपने

पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है। 3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 494 / टीएल / 2024 में दिनांक 24.5.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना

की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है। 4. **पावरग्रिड साँउथ ओलपाड ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/ subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 4.6.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 5.6.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई

व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)